

मिथ्या भावितिलिखने or कल्पन, मिथ्याकल्पन.—(Matter interpolated)

छलेन निवेशित याकरं or लेख्य, मिथ्याभिलिखित, मिथ्याकल्पित,

INTERPOLATOR, s. छलेन निवेशितकारी m. (न.) or स्थापकारी m. (त्रृ).

To INTERPOSE, v. a. अनपी (c. 3. -दधाति -तोऽस्मै-पातु), व्यवया, मध्ये

स्था in CAUS. (स्थापयति -पितु), अतः, स्था, अनर्गम् -तोऽस्मै-

(c. 10. -मध्यपाति -पितु), अव्यहितं -तोऽस्मै, अनर्गम् -

To INTERPOSE, v. n. मध्ये स्था (c. 1. तिष्ठति, स्थातु) or वृ (c. 1. पश्चते-

-पितु), अनर्गम् (c. 1. -नग्नाति गन्तु), अनर्गति (c. 2. -रति -तु), मध्यवै-

-पितु -त्वं भू—(Intrude) मध्ये प्रविष्ट (c. 6. -प्रविष्टति -वृ).

INTERPOSER, s. मध्यवैषी m. (न.), मध्यस्थः -स्थायी m. (न.), अनर्गमासी m.

INTERPOSITION, s. मध्यस्थता, मध्यवैष्टित्वं, मध्यवैष्ट्यं, अनर्गतयः, अनर्गमनं,

अनर्गमनं, अव्यवाप्तं, अव्यहितवृत्यं, अनर्गमत्ययः, अव्यवधाय-

कर्त्वं, अनुभवत्वं.

To INTERPRET, v. a. आव्याप्ता (c. 2. -स्थापति -तु), स्थैर्यं आव्याप्ता or वृष्टि

(c. 5. -वृयोगीति -वित्तु) or प्रकाश (c. 10. -काङ्गायति -पितु), वैर्यं

वृष्टि (c. 10. वौपयति -पितु) or प्रवृत्त or व्यज्ञीकृ or स्पर्शीकृ or आकृ

or विष्णुप (c. 10. -हृपयति -पितु), व्याध (c. 1. -हरिति -तु), विष्वा

(c. 2. -वृतीति), आव्याप्त (c. 2. -वृत्त), परिष्वप्त (c. 10. -शोधयति -पितु),

प्रवृत्त (c. 2. -वृक्ष-वृत्त), स्थैर्यं कृ, विष्वरूप कृ—(Translate) भाषापादोक्-

INTERPRETABLE, a. आव्याप्तयः-या-यै, विवरणात्मकः-या-यै-यै-

INTERPRETATION, s. आव्याप्ता -स्थापन, विवरणं, विविति f., आव्याप्तं,

आव्याप्तिः f., स्थैर्योकरणं, विष्वप्तं, विचक्षणं, स्थैर्योक्तप्तं,

स्थैर्योक्तप्तं वाक्यं; 'of dreams', स्प्रश्विचाराः, आकृनिकं; 'of a sloka,

स्थैर्योक्तप्तं'—(Meaning given, commentary) स्थैर्यं, आव्याप्ता,

दीक्षा, भासः; 'doubtful interpretation', स्थैर्याव्याप्तयः; 'far-fetched

interpretation', फ़िल्हाईयः—(Translation) भाषापादं.

INTERPRETATIVE, a. आव्याप्तः-का-अ॒, आव्याप्ताकारोऽरिष्टो -रि (ज.).

विवरणात्मकोऽस्ति-स्ति-स्ति-स्ति-स्ति-स्ति-स्ति-स्ति-स्ति-स्ति-स्ति-स्ति-

INTERPRETED, p. p. आव्याप्तः-ता -त॒, विष्वाः -ता -त॒, आव्याप्तः -ता -त॒,

प्रकाशितः -ता -त॒, स्थैर्योक्तप्तः -ता -त॒, विष्वाः -ता -त॒, आव्याप्तः -ता -त॒,

प्रकाशितः -ता -त॒, स्थैर्योक्तप्तः -ता -त॒, विष्वाः -ता -त॒, आव्याप्तः -ता -त॒,

विष्वाः -ता -त॒, कृतविवरणः -या -यै-यै—(Translated) भाषापाद-

रीकृतः -ता -त॒.

INTERPRETER, s. आव्याप्तात् m. (त्रृ), आव्याप्ताकारी m. (न.), विवरणकारी m.

(त्रृ), आव्याप्तोकरणः, आव्याप्तोकरणः, आव्याप्तकारणः, आव्याप्त-

कारणः—(Translator, one who speaks two languages) विज्ञायावादी m. (न.), भाषापादव्यक्ति m. (न.), भाषापादय-

वक्ता m.—(Commentator) भाष्यकार, भाष्यकर.

INTERROGATE, s. अनायकर्त्ता, अरावकर्त्ता, अरावकर्त्ता, अनायकं, रान्द्रय-

मध्यगतं अरावकर्त्ता: or अनायकालः;

To INTERROGATE, v. a. प्रश्न (c. 6. पृच्छति, प्राप्तु), अनुप्रश्न, परिप्रश्न,

समनुप्रश्न, अभिप्रश्न, प्रश्नं कृ, पृच्छन् कृ, अनुप्रश्न (c. 7. -उनक्ति -पुक्त-

-पोक्तु), प्रश्नन् परीष्ठ (c. 1. -इष्ठते -त्वं वित्तु), प्रश्नोपरामेयं परीष्ठ, शा

in des. (विज्ञातात् -ते -स्मै-स्तु).

INTERROGATED, p. p. पृष्ठः -द्वा -ए॑, अभिपृष्ठः -द्वा -ए॑, अनुपृष्ठः -का -क॑

INTERROGATION, s. प्रश्नः, पृच्छा -क्त्वा, प्रश्नन् -ना, अनुपूयोगः, प्रश्नन्

योगः, विज्ञातात्, अध्यक्षितात्; 'note of interrogation', प्रश्नचिह्नः, प्रश्न-

मूक्षिकचिह्नः

INTERROGATIVE, a. पृच्छकः -का -क॑, प्रश्नकारकः -का -क॑, प्रश्नकृपः -पा

-प॑, प्रश्नार्थकः -का -क॑, प्रश्नार्थकः -का -क॑.

INTERROGATIVE, s. (Word used in asking questions) प्रश्नार्थकसंबै-

नाम n. (न.). Interrogative words are such as कि, किउ,

किलिदि.

INTERROGATIVELY, adv. प्रश्नरूपेण, प्रश्नक्रमेण, अनुपोगारूपेण, प्रश्नतत्त्वं, अनुपोगतत्त्वं.

INTERROGATOR, s. प्रश्ना m. (वृ), पृच्छकः, प्रश्नकरः, प्रश्नकर्ता m. (वृ).

अनुपोगा m. (कृ), विज्ञातः m., क्षयार्थकः, क्षयार्थकः.

INTERROGATORY, s. (A question) प्रश्नः, अनुपोगः, पृच्छा -क्त्वा.

INTERROGATORY, a. See INTERROGATIVE.

To INTERRUPT, v. a. भ्रम् (c. 7. भ्रमकिं भ्रम्तु), विलित् (c. 7. -लिनति

-त्वं वित्तु), विद्, खस्त (c. 10. खस्यपयति -पितु), भ्रम् (c. 7. भ्रमति, भ्रम्तु),

लुप् (c. 6. लुप्तिं, लोतु, c. 10. लोपयति -पितु), विलुप्, वाप् (c. 1.

वापति -पितु), विलुप् (c. 2. -हित्त-त्वं), व्याहन्, महित्वन्, निवृ (c. 10.

-वापयति -पितु), भ्रम्तु कृ, विलित् कृ, खस्तन् कृ; 'he will interrupt my

meditation by his complaints, परिवेशनै सामाप्ति मे भ्रमति'.

INTERRUPTED, p. p. पृच्छितः -द्वा -क्त्वा, भ्रमः -ता -त॒, खसितः -ता -त॒,

स्विच्छेदः -द्वा -क्त्वा, स्वेच्छः -द्वा -क्त्वा, लुपः -ता -त॒, महित्वः -ता -त॒,

विलितः -ता -त॒, व्याहनः -ता -त॒, प्रतिहतः -ता -त॒, विष्वितः -ता -त॒.

INTERRUPTEDLY, adv. पृच्छित्वेद, स्वेच्छेद, लुप्तेद, महित्वेद, विलित्वेद, खसित्वेद.

INTERRUPTER, s. पृच्छित्वाकारो m. (न.), भ्रमकारो m., भ्रम्ता m. (कृ),

खस्तनकृत, आपातकृत, विलित्वाकारो m. (वृ), वापकः.

INTERRUPTION, s. भ्रमः, विलितः, लुपः, खस्तन्, अनर्गतयः, आपातः,

प्रितः, वाप-पा, प्रतिहतिः, रोप, प्रतिरोपः, निवाहनः, लुपः, प्रतिलिपः.

To INTERSECT, v. a. and v. n. परस्परत्वं लित् (c. 7. लिनति, लेतु) or परि-

लित् or विलित्, परस्परत्वेद् कृ, परिलित् कृ.

INTERSECTED, p. p. परिलितः -द्वा -क्त्वा, परस्परत्वेदः -द्वा -क्त्वा, विलितः -द्वा -क्त्वा.

INTERSECTION, s. परि-लितः, विलितः, लेतः, खस्तन्, अनर्गतयः, आपातः,

प्रितः, वाप-पा, प्रतिहतिः, रोप, प्रतिरोपः, निवाहनः, लुपः, प्रतिलिपः.

To INTERSPERSE, v. a. अच्युत्यापये इतस्तोः प्रश्निः (c. 6. -निषित -त्वं)

or कृ (c. 6. विरक्ति, भ्रम्तु -त्वं) or वित्त or व्यपृकृ or स्वाकृ or स्वात्, अस्यद्वयः;

सह निषित (c. 10. स्त्रियपति -पितु) or सम्बिन्दित् व्याप्तिः—

किंतु वित्त (c. 10. स्त्रियपति -पितु) or व्याप्तिः—

इतस्तो वित्तिरूपं व्याप्तिरूपं or व्यपृकृं व्याप्तिरूपं व्याप्तिरूपं;

इतस्तो वित्तिरूपं व्याप्तिरूपं or व्यपृकृं व्याप्तिरूपं व्याप्तिरूपं;

INTERSPersed, p. p. निषितः -ता -त॒, आपातिः -द्वा -क्त्वा, सम्बिन्दितः -द्वा

-प॑, अस्यद्वये मध्यगते प्रश्निः—

प्रश्निः -मा -म॑ or कृतीयः -यौ -यै or व्य-

वक्तीयः -यौ -यै, संस्थृतः -द्वा -दृ, करवित्तः -द्वा -दृ, अनुपूयः -द्वा -दृ

INTERSPERSION, s. व्यपृकृया, व्याप्तिरूपया, सम्बिन्दितया, अस्यद्वये इतस्तो

वित्तिरूपं व्याप्तिरूपं or व्यपृकृं व्याप्तिरूपं;

INTERSTELLAR, a. तारामहालग्नातः -ता -त॒, तारामहालग्नातः: प्रितः -ता -त॒,

तारामहालग्नीती -वित्ती -त्वं -ति (n.), तारामहालग्नात्ययवादीः &c.

INTERSTICE, s. दित्तः, विलितः, अव्यवस्थः, लेतः, साम्यः m., अनर्गतः, अनर्गतः,

निरर्गतः: -ला -ल॑, अनायतः -रा -र॑, निवित्तः: -द्वा -दृ, निवित्तः -ना -न॑,

निवित्तः -रा -र॑, निवित्तः: -दा -दृ; 'having interstices', साम्यः -रा -र॑,

निवित्तः -ला -ल॑, विलितः -द्वा -दृ.

INTERSTITIAL, a. सान्तवः -रा -र॑, सान्तरातः -ला -ल॑, अनर्गतः -या -यै,

INTERTEXTURE, s. ग्रन्थातः, परस्परत्वान्यन्तः, परस्परवित्तिनां, परस्परत्वान्यतः/

To INTERTWINE, INTERTWIST, s. ग्रन्थः (c. 9. ग्रन्थातः, c. 1. ग्रन्थपति

-पितु), परस्परं ग्रन्थः, पुर (c. 10. पुरयति -पितु), स्वच (c. 10. स्वचयति

-पितु), उत्तरात् -त्वं वित्तु, ग्रन्थात् -त्वं वित्तु, c. 10. कुचयति -पितु)